SOM DATT FINANCE CORPORATION LTD.

CIN:L65921DL1993PLC377542

Date: 29/06/2023

BSE Limited

Corporate Service Department, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001

Scrip Code: 511571

Dear Sir/ Madam

Sub: Compliance under Regulation 47 and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations, 2015)

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 of the SEBI Listing Regulations, 2015, we submit herewith a copy of the advertisement published for the shareholders of the Company on 29th June, 2023 in Financial express - all editions (English) and Jansatta, informing, inter alia, the following:

- a. Dispatch of AGM Notice, scheduled to be held on Friday, 21st July, 2023 at 12:00 p.m. through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means, along with the Annual Report for the financial year 2022-23;
- b. E-voting information

Kindly take the above information on record.

Thanking You

For Som Datt Finance Corporation Limited

Simran

Chyllid is pared by Jainese Madhouse

Land Chyllid C

Simran Malhotra

Company Secretary and Compliance Officer

मुंबई में एक जुलाई से होगी जलापूर्ति में 10 फीसद कटौती

मुंबई, 28 जून (भाषा)।

मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली झीलों में जलस्तर के कम होने के कारण नगर निकाय ने शनिवार से जलापूर्ति में 10 फीसद कटौती करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने लोगों से अपील की है कि वे पानी को बचाएं और इसका इस्तेमाल

उचित तरीके से करें। दक्षिण-पश्चिम मानसन रविवार को मुंबई पहुंच गया। चहल ने कहा कि बीएमसी ने एक जुलाई से मुंबई में पानी की आपूर्ति में 10 फीसद कटौती करने का फैसला किया है, क्योंकि शहर को पानी की आपर्ति करने वाली झीलों में जल का भंडार करीब सात फीसद है।

इसका कारण झीलों के जलग्रहण इलाकों में बारिश का कम होना है। मुंबई, ठाणे और नासिक जिलों में स्थित सात झीलों-भातसा, अपर वैतरणा, मिडिल वैतरणा, तानसा, मोडक सागर, विहार और तुलसी से 3800 एमएलडी पानी की आपूर्ति होती है।

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग के लिए दिशा निर्देश बनाए

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 28 जून।

देहरादनू, 28 जून।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारतीय विश्वविद्यालयों में सतत विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिन्हें जल्द ही जारी किया जाएगा।

यूजीसी ने 27 जून को आयोजित 570वीं

छिपे बकरीद की नमाज पढ़े जाने को लेकर हुए विवाद

के मद्देनजर इस बार पुलिस ने वहां रह रहे मुसलमान

समुदाय के लोगों को ईद की नमाज जोशीमठ में अदा

करने का सुझाव दिया है। इस संबंध में आयोजित बैठक

में बदरीनाथ धाम में निर्माण कार्यों में लगे मुसलमान

समुदाय के लोगों ने पुलिस के इस सुझाव पर सहमति

जताई है। बैठक में पंडा पुरोहित समाज के प्रतिनिधियों

ने भी भाग लिया। बदरीनाथ के पुलिस थाना प्रभारी के

सी भट्ट ने बताया कि इन दिनों बदरीनाथ में निर्माण कार्य

चल रहा है जिसमें मुसलमान समुदाय के मिस्त्री और

मजदूर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि बकरीद के त्योहार

पर नमाज अदा करने को लेकर सभी पक्षों से बातचीत

की गई और सभी ने धाम की मर्यादा के अनुरूप नमाज

धाम से बाहर अदा करने पर सहमति जताई।

विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। इन दिशानिर्देशों को लोगों के सुझाव के लिए 30 जुन को सार्वजनिक किया जाएगा। यजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जीवंत विश्वविद्यालय-उद्योग संबंध की सिफारिश करती है, जिसमें विद्यार्थियों को

वास्तविक जीवन के उदाहरणों से परिचित कराने और उन्हें विश्व स्तर पर सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है। शिक्षा नीति के मुताबिक यूजीसी ने विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि ये दिशानिर्देश विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच सहयोग के माध्यम से अनुसंधान और विकास को

अमरनाथ गुफा मंदिर में सुरक्षा प्रबंधों की हुई समीक्षा श्रीनगर, 28 जून (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने सप्ताहांत में शुरू होने जा रही वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा बंदोबस्तों की बुधवार को समीक्षा की। जम्मू-कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल , सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने पवित्र गुफा और मंदिर तक जाने वाले पारंपरिक मार्ग पर किए गए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की।

कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर लिखा कि कश्मीर के एडीजीपी श्री विजय कमार ने सीआरपीएफ के आईजी, सीएसएफ के आइजी, सेक्टर 3 के कमांडर, अनंतनाग के एसएसपी और आइटीबीपी के कमांडिंग आफिसर के साथ पंजतरणी और पवित्र गुफा का दौरा किया।



कि 15 वर्ष की न्यनतम अवधि के लिए, लीज के आधार पर, कारपेट एरिया 1700–2000 वर्ग फीट, ग्राउंड फ्लोर पर परिसर के लिए. दो बोली प्रणाली (तकनीकी व वित्तीय बोली) व तहत क्षेत्र जगतपुरी, नत्थू कॉलोनी चौक के पास, मंडोली रोड, न्यूं मॉडर्न शाहदरा, दिल्ली–110093 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइटः www.punjabandsindbank.co.in आंचलिक प्रबंधक

बकरीद की नमाज बदरीनाथ अतीक हत्याकांड की जांच संबंधी याचिका पर तीन जुलाई की बजाय जोशीमठ में होगी को सुप्रीम कोर्ट में सुनाई जनसत्ता संवाददाता

जनसत्ता ब्यूरो बदरीनाथ धाम में दो वर्ष पूर्व कथित रूप से चोरी-नई दिल्ली, 28 जून।

> उच्चतम न्यायालय अपराधी सरगना से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की स्वतंत्र जांच संबंधी याचिका पर तीन जुलाई को सुनवाई करेगा। पत्रकार बनकर आए तीन अपराधियों ने प्रयागराज में अप्रैल में अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी थी।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई तीन जुलाई की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति एसआर भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगी याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अब तक हुई 183 पुलिस मुठभेड़ों की जांच के आदेश देने का भी न्यायालय से अनुरोध किया है।



चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

शाखा कार्यालय : एससीओ. 218—219, प्रथम तल, प्रवेश आईसीआईसीआई बैंक की बैकसाइड से, सेक्टर—34—ए, चंडीगढ—160022 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री तनुज शर्मा - मोबाइल नंबर 93162-54005

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सुचना। एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार / सह-कर्जदार / बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका **भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड** इसमें आगे **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड** कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभृत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर ई—नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी।

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई—नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com के माध्यम से करेंगे।

d	•				
	खाता संख्या तथा	धारा 13(2) के तहत	सम्पत्ति /	सुरक्षित मूल्य, धरोहर	
ı	कर्जदार,	मांग सूचना की	सम्पत्तियों का वर्णन	राशि जमा एवं बोली	समय, ईएमडी जमा की
	सह–कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	तिथि एवं राशि		वृद्धि राशि (रू. में)	अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1	ऋण सं. X0HECIG00001744185	07-06-2021	आवासीय मकान नंबर एचई	T 00 00 000 /	20-07-2023
П	कर्जदार एवं सह–कर्जदार	र्फा. 24,72,308 ∕ —	, ,	VI. 22,00,000/	पूर्वा. 11.00 बजे से
П	 राकेश कुमार, 2. मोहित कुमार, 	05-06-2021	247 ए, फेज-7, मोहाली के	र्फ. 2,20,000 ∕ —	अंप. 01.00 बजे तक 19—07—2023
ı	ा. राकरा कुनार, 2. नाहरा कुनार, 3. निशा देवी	तक तथा उस पर	सभी अंश एवं खंड।	रू. 50,000 ∕ —	पूर्वा. 10.00 बज़े से
П		l .		,	अप. ०५.०० बजे तक
П	(सभी निवासी) एचई २४७ ए, फेज-७, मोहाली-160068	आगे ब्याज			अनुमति के अनुसार

सभी इच्छुक प्रतिभागियों / बोलीदाताओं से वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ एवं https://www.cholamandalam.com/auction-notices देखने का अनुरोध है। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रत्याशी बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस –81240 00030), Ms.procure247; सम्पर्क करें श्री अल्पेश बोरिसा सेल नंबर 7046612345/9898056524, ई-मेल आईडी : alpesh@procure247.com, suraj@tender247.com, parin@tender247.com

यह सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस भी है

auction-notices देखें। प्राधिकृत अधिकारी

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड दिनांक : 29–06–2023, स्थान : चंडीगढ़

2. ई—नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया https://chola-lap.procure247.com/ एवं https://cholamandalam.com/

बैक ऑफ महाराष्ट्र

बैंक ऑफ महाराष्ट्र; एसेट रिकवरी ब्रांच 6-30/31, W.E.A., करोल बाग, नई दिल्ली 110005. फोन – 91- 8929594461 ईमेल: bom1933@mahabank.co.in; brmgr1933@mahabank.co.in

Amrit Mahotsav

मुख्य कार्यालय: लोकमंगल, १५०१, शिवाजी नगर, पुणे-४११००५ AJ78/NPA/RakeshKumar/SARFAESI/2023-24

दिनांकः **26.06.2023**

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

1. सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना दिनांकित 12—06—2017

2. सम्पत्ति का कब्जा सौंपने के लिए सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा सूचना दिनांकित 21—08—2018 हेतु सूचना

3. कर्जदार श्री राकेश कुमार से बकाया राशि चुकाने हेतू पत्र दिनांकित 18–07–2020 4. सम्पत्ति का कब्जा सौंपने के लिए सरफासी एेक्ट, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा सूचना दिनांकित 15—01—2021 हेतु सूचना

5. कर्जदार श्री राकेश कुमार द्वारा दिया गया वचनपत्र दिनांकित 27—01—2021 6. सम्पत्ति का कब्जा सौंपने के लिए सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा सूचना दिनांकित 06—07—2021 हेतु सूचना

7. ओटीएस प्रस्ताव पत्र दिनांकित 30-07-2022 तथा बैंक द्वारा पत्र दिनांकित 30-07-2022 के माध्यम से ओटीएस की स्वीकृति 8. बैंक का ओटीएस स्वीकृति वापस लेने के संबंध में पत्र दिनांकित 03—10—2022

9. श्री राकेश कुमार द्वारा ओटीएस प्रस्ताव पत्र दिनांकित 24—11—2022

10. बैंक का उत्तर दिनांकित 19—12—2022

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक **मांग सूचना दिनांकित 12-06-2017 जारी की थी, जिसमें कर्जदार** श्री राकेश कुमार पुत्र श्री जितन्दर साहनी एवं श्रीमती रूबी साहनी पत्नी श्री राकेश कुमार (कर्जदार) से सूचना में वर्णित राशि फ. 17,39,066 / — (फ. सत्रह लाख निन्यानवे हजार छियासठ मात्र) + 12—06—2017 की प्रभावी तिथि से मासिक अंतराल पर ब्याज और दण्ड

ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार एवं गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा 26 जून, 2023 को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदारों एवं गारंटर(यदि कोई) को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार बैंक ऑफ महाराष्ट्र की उपरोक्त बकाया राशि के प्रभाराधीन होगा।

बैंक में बंधक रखी गई तथा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं. अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : निर्मित सम्पत्ति प्राइवेट नंबर 304, द्वितीय तल, छत / टेरेस के अधिकार नहीं, निर्मित सम्पत्ति प्लॉट नंबर यू–104 और यू–105 का बैक साइंड राइंट साइंड का हिस्सा, परिमाप 50 वर्ग गज यानी 41.81 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 345 का हिस्सा, जो ग्राम बिंदापुर, दिल्ली राज्य दिल्ली की की राजस्व सम्पदा, क्षेत्र आबादी कालोनी के रूप में ज्ञात, यू—ब्लॉक, उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059 में स्थित है, बिल्डिंग के नीचे भूमि, कॉमन स्टेयरकेस, प्रवेश और रास्ते के यथानुपात अधिकार और सभी सामान्य अधिकारों के साथ। सम्पत्ति श्री राकेश कुमार एवं श्रीमती रूबी साहनी के नाम है।

दिनांक: **26.06.2023, स्थान: दि**ल्ली संजय कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank सर्कल शास्त्र केंद्र—हनुमान चौक के पास, नई टिहरी, जिला—टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)—249001

अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी(ओ) / गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति—दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल / अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास

गिरवी / प्रभारित है, का **रचनात्मक / भौतिक / सांकेतिक कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक** द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर **बैंक** नीचे उल्लिखित ऋणी ऋणी(ओ) / गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेत् बेची जार्येगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का सक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।

क्रमांक सं.	शाखा का नाम खाता का नाम ऋणी / गारन्टर / बधंककर्ता का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	अधिनियम 2002 के अनुसार दिनांक डिमांड नोटिस 13(2) सरफेर्स अधिनियम 2002 के अनुसार बकाया राशि		ई—नीलामी की तिथि	लेनदारों
1.	शाखाः किशनपुर (278100) ऋणीः मैसर्स नीरमेय वांटर एंड एग्रो	बंधक फैक्ट्री भूमि एवं भवन जिसका क्षेत्रफल 740 वर्ग मीटर, प्लॉट नं0 बी—3ए, सेक्टर—01, जो ग्राम सीमा स्नियामपुर, तहसील— कोटद्वार एवं औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ सेंटर सिगडी, कोटद्वार,	ट) कब्ना संचना 13(4)	(EMD)	एवं समय	का ज्ञात प्रभार का विवरण
	पाइवेट लिगिटेड पता— जॉट न0 वी—3ए संकटर—1, सिगडी ग्रोथ सेंटर, सिडकुल— कोटद्वार, उत्तराखण्ड—246149, डायरेक्टर /ऋणी: 1 श्री पुंकज गंडारी निवासी: अनमोल हाइट, प्लॉट नं0 150, सेक्टर—27,	जिला—उत्तराखण्ड मे स्थित है, सामाएं पूर्व 12 मीटर चौडा रास्ता, प्राप्ता 24 मीटर चौडा रास्ता, उत्तर प्लॉट नं0 बी1 से बी 3, दक्षण प्लॉट नं0 बी4, लीज डीड दिनांक 24.02.2014,	2002 के अनुसार दिनांक ई)कब्जे का प्रकार (सांकेतिक /भौतिक/रचनात्मक)	स) न्यूनतम बोली वृद्धि की राशि		
	पारसिक हिल, सी०बी० डी० बेलापुर, नवी	सब—रजिस्ट्रार ऑफिस कोटद्वार, बुक नं० 1, वॉल्युम नं० 397, पेज		रू० 45.00 लाख	20.07.2023	
	मुबंई -400614, डायरेक्टर / ऋणीः 2.स्व.	नं० १४६, अतिरिक्त बुक नं० १, वॉल्युम नं० ५२०, पेज नं० ६१ से १०४, दस्तावेज नं० ६६०, मैसर्स नीरमेय वाटर एवं एग्रो प्राइवेट		रू० ४.५० लाख	- पूर्वाहन 11:00	कोई
	श्री. महिपाल सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी :— (ए) श्रीमती देववंती देवी पत्नी स्व. श्री महिपाल सिंह. (बी) श्रीमती रजनी भंडारी	लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामीः मैसर्स नीरमेय	4. 11 1 1 1 1 1	रू० 0.50 लाख	बजे से सार्य	ज्ञात नहीं
	महिपाल सिंह. (बी) श्रीमती रजनी भडारी	वाटर एवं एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर पंकज भंडारी	स) रु० 1,60,40,347.19		4.00 बजे तक	2,556
	स्व. श्री महिपाल सिंह, स्व. श्री महिपाल वि	मंडारी पुत्र स्व. श्री महिपाल सिंह, (डी) नीरज एम मंडा्री पुत्र इंट के सभी काननी उदलाशिकारियों के प्रवे:-(ए स. डी.)	17.00.2020		04040	
	III .	is के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के पते:-(ए स डी) र, जिलाः पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।	इं) भौतिक	<i> </i>		

नियम व शर्ते : बिक्री सुरक्षा नियम (प्रवर्तन) नियम 2002 और निम्नलिखित शर्तो में निर्धारित नियमों और शर्तो के अधीन होगी। नीलामी की सम्पत्तियों को जहां है जैसा है जो है के आधार पर बिक्री की जायेगी। 🔈 अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिय किया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेही नही होगे। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई—नीलामी के माध्यम से प्लेटफार्म पर उपलब्ध वेबसाइट: mstcecommerce.com. 4 .विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिये आप वेब साईट www.ibapi.in, https://www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app, & www.pnbindia.in पर लॉगिन कर सकते है 🖡 . इच्छुक बोलीदाता किसी भी जानकारी के लिए श्री एस0 के0 मित्तल, मो0 नं0 8699823016 से सम्पर्क करे।

सरफेसी ऐक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांकः 28.06.2023

स्थान – नई टिहरी

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

नेशनल फटिलाइज़र्स लिमिटेड ए-11, सेक्टर-24, नोएडा-201301 एन एफ एल दुश्मावः 0120-2412294, 2412445, **फॅक्ट: 0120-2412218**

संदर्भ सं: एनएफएल/सीएमओ/एबीडी/एग्रो.के./सीएंडएफ/02/2023 दिनांक: 29.06.2023 ई-प्रोक्योरमेंट सूचना

संभावित बोलीदाताओं से कैरिंग एंड फारवर्डिंग (सी एंड एफ) एजेन्ट और विभिन्न राज्यों में सी एंड एफ से डीलरों के स्थानों तक एग्रोकेमिकल्स के परिवहन हेतु बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत विवरणों के लिए वेबसाइट https://etenders.gov.in/eprocure/app (e-tendering) & www.nationalfertilizers.com (Homepage) देखें। ई--निविदा सं. 2023_ NFL_158978 _1 है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि / तकनीकी निविदा दस्तावेज खुलने की तिथि क्रमश 13.07.2023 को 15.30 बजे / 14.07.2023 को 15.30 बजे है। इस निविदा का कोई भी शुद्धिपत्र, केवल हमारी वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा। महाप्रबंधक (विपणन)

@NFL_Kisan | 6 @nationalfertilizers | 6 National Fertilizers Limited

SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED Regd. office: 516, Suneja Tower-I, District Centre, Janakpuri, Delhi-110058 Tel No. 0124-4396900, E-mail: compliancesdfl@gmail.com;

Website: www.somdattfin.com, CIN: L65921DL1993PLC377542

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 30th (Thirtieth) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 21st July, 2023 at 12:00 p.m. through video conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-23 on 28th June, 2023 through electronic mode to members whose email addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with the circular nos. 20/2020 dated May 5, 2020 read with circular nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020, and May 05, 2022 respectively and subsequent circulars issued in this regard, latest being 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by Securities Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"). The Notice of the AGM and Annual Report of the Company for Financial Year 2022-23 is available and can be downloaded from the company's website https://www.somdattfin.com/Investors/annual-report/ and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically on all resolutions set forth in the Notice of the AGM, using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of the members shall be in proportion of equity shares held by them in the paid up share capital of the Company as on Friday 21st July, 2023. (cut off date).

The remote e-voting period commences on 18th July, 2023 (9:00 a.m. IST) and ends on 20th July, 2023 (5:00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

If you have not registered your e-mail address with Company/Depository you may please follow below instructions for obtaining login id details for e-voting:

Shareholders holding shares in physical mode are requested to submit the form ISR-1 along with supporting documents in original to the Registrar and Physical Transfer Agents of the Company, RCMC Share Registry Pvt. Ltd. at B-25/1. Holding Okhla Industrial Area, Phase -2, Near Rana Motors, New Delhi - 110020 for registering email address. The said form is available on the website of the company under the head Investor-Announcement-Information to physical shareholder

Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process Holding advised by your DP.

For details relating to e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-222-990 or send a request at

For SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED

Simran Malhotra Company Secretary

punjab national bank पंजाब मेशनल बैंक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!भरोसे का प्रतीक

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, द्वितीय तल, विक्रांत टॉवर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली

अवल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स / बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बँक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) / बंधककर्ता(ओं), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

	4.0	प्रत्य	भूत पारसम्पात्तया का बिक्रा का अनुसूचा			
लॉट		सरफासी अधिनियम 2002 की घारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि		आरक्षित मूल्य	नीलामी की	सुरक्षित
सं.	खाते का नाम	बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण	धरोहर राशि	तिथि एवं	लेनदारों को
	कर्जदार/गारंटर्स/ बंधककर्ताओं	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि	जवल सन्यासया यम विवरन		A STANDARD	ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स
	खाते का नाम एवं पता	कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक		बोली वृद्धि राशि	समय	का विवरण
	पीएनबीः राजेन्द्रा प्लेस	10.09.2018	औद्योगिक सम्पत्ति जोकि प्लॉट नं. 24, ब्लॉक—सी, सैक्टर—8, न्यू ओखला औद्योगिक विकास		20.07.2023	ज्ञात नहीं
	मैसर्स कैपसन्स इंजीनियर्स प्रा. लि., उधारकर्ताः श्री अतुल कपूर, स्व. अनुज कपूर, श्री आमा कपूर और श्रीमती आशा कपूर, डी-26, साउथ सिटी-1, गुड़गांव-122001	रु. 411.66 लाख + भविष्य का ब्याज एवं अन्य खर्चें	प्राधिकरण, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. में स्थित, क्षेत्रफल 803.00 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मैसर्स नवाब पैकर्स (प्रोप. स्वं. जवाहार लाल कपूर) के नाम पर है।	চ. 70.27 লাভ্র	पूर्वांड 11.00 बजे	
		16.11.2018		ড. 2.00 লাভ্র	से अर्पाह	
		भौतिक		V. 2.00 GIG	04.00 बजे	
2	पीएनबीः राजेन्द्रा प्लेस	15.12.2022	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि साम्यिक बंधक सम्पूर्ण रिहायशी सम्पत्ति नं. 49—बी,		03.08.2023	ज्ञात नहीं
	श्रीमती कुलदीप कौर और श्रीमती गुरविंदर रु. 308.41 लाख -		शामिल खसरा नं. 54, गाँव हुमायूंपुर के रेवेन्यू ईस्टेट में, कॉलोनी जिसे अब अर्जुन नगर कहते		पूर्वाह 11.00 बजे	1708471 3774
	नारायण, मकान नं. 50, टॉप फ्लोर, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली 110029	24.03.2023	है, नई दिल्ली—110029 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 194 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती कुलदीप कौर और श्रीमती गुरविंदर नारायण के नाम पर है।	ড. 2.00 লাভ্র	से अर्पाइ	
	राकवरजन एन्वलव, १५०ला ११००२५		कार जार जानता पुरावदर नारावण क नान पर है।	V. 2.00 GIG	04.00 बजे	

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर की जा रही है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी बुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से उपरोक्तानुसार समय एवं तिथि के अनुसार की जाएगी। (4) बैंक किसी भी समय नीलामी को रद्द / स्थगित / वापस करने का अधिकार सुरक्षित मूल्य की पहली बोली राशि विज्ञापन में उल्लिखित बोली वृद्धि राशि को शामिल करने के बाद ही स्वीकार की जाएगी (6) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app देखें। (5) संपत्तियों का निरीक्षण दिनांक 14.07.2023 को पूर्वा 11.30 बजे से अर्पा. 1.30 बजे के बीच किया जा सकता है (6) प्राधिकृत अधिकारी का नाम: श्री अर्पित तनेजा, मो. 9711156687

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक : 26.06.2023, स्थान : नई दिल्ली //) बैंक ऑफ़ बड़ीदा

Terment VIIIAVA

Bank of Baroda

क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा रीज़न, 13वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

(1) - (1) सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत ऑनलाइन-नीलामी के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए नियम और शर्तें

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) & 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधककर्ता और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को प्रत्याभूत — दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से — प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) / प्रतिभूति आस्तियां / बकाया / आरक्षित मूल्य / ई—नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे

130	1171.9							
क्र. सं.	कर्जदार और गारंटर्स का नाम एवं पता	अचल संपत्तियों का विवरण ज्ञात भार के साथ, यदि कोई हो	कुल बकाया	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी तिथि एवं समय	कब्जा की स्थिति	निरीक्षण की तिथि एवं समय	शाखा का नाम और सम्पर्क नं.
1	 उधारकर्ताः श्री महेश कुमार पुत्र श्री वीर सिंह सह—उधारकर्ताः श्रीमती शशि पत्नी श्री महेश कुमार, जिनका रिहायशी पताः ग्राम डाढ़ा, पोस्ट कासना, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर— उत्तर प्रदेश उधारकर्ताः मैसर्स एम के स्टोर इसके प्रोप. श्रीमती शशि के माध्यम से फर्म का पताः दुकान नं. 17, क्षेत्रफल 18.62 वर्ग मी. भूतल, ब्लॉक—4 गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर—29, नोएडा—201301 	भू तल, ब्लॉक-4, गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-29, नोएडा-201301 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री महेश कुमार पुत्र श्री वीर सिंह के नाम पर है।	हजार आठ सौ सोलह और पैसे छियालीस मात्र) दिनांक 14.01.2023 तक और भविष्य	₹ 3,90,000/-	04.08.2023 समय को अर्पांड 02.00 बजे से अर्पांड 06.00 बजे तक	भौतिक कब्जा	26.07.2023 समय को पूर्वाइ 10.00 बजे से अपींह 02.00 बजे तक	नोएडा मुख्य शाखा सेक्टर 29/ 8368767911
2	 उधारकर्ताः श्रीमती पूजा पत्नी नीरज कुमार गुप्ता सह—उधारकर्ताः श्री नीरज कुमार गुप्ता पुत्र राम कुमार गुप्ता गारंटरः श्री राम कुमार गुप्ता पुत्र बाल मुकुंद गुप्ता समीः रिहायशी पताः 894, विवेकानन्द नगर—3 गाजियाबाद कवि नगर गाजियाबाद—201002 	साम्यिक बंधक मकान नं. 1513, भूतल, बिना छत के अधिकार के, सैक्टर—4, विवेकानन्द नगर में स्थित, गाजियाबाद यूपी—201002 में स्थित, क्षेत्रफल 30.649 वर्ग मी.	हजार छः सौ पिचासी और पैसे आठ मात्र)	₹ 1,36,000/-	04.08.2023 समय को अर्पांड 02.00 बजे से अर्पांड	भौतिक कब्जा	26.07.2023 समय को पूर्वाइ 10.00 बजे से अपॉइ	राज नगर शाखा / 8007602296

लागत, अन्य प्रभार, अन्य विविध

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm & https://ibapi.in पर दिए गए लिंक को देखें। इच्छुक बोलीदाता ऊपर वर्णित सम्पत्ति के समक्ष शाखा से सम्पर्क कर सकते है।

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा दिनांक : 28-06-2023, स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com

evoting@nsdl.co.in.

Place: Gurugram

Date: 28/06/2023







FINANCIAL EXPRESS

VALUE INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 14KM Stone, Aurangabad- Paithan Road, Village Chittegaon, Taluka Paithan, Aurangabad- 431 005 CIN No. L99999MH1988PLC046445 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER /HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER, 2021 (Amount in Millions Six Months **Ouarter Ended** Ouarter ended ended **Particulars** 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 Unaudited Unaudited Unaudited 1. Total Income from Operations 1.47 1.75 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, -103.45 -556.53 -298.82 Exceptional and/or Extraordinary items) 3. Net Profit / (Loss) for the period before tax -103.45 -556.53 -298.82 (after Exceptional and/or Extraordinary items) -103.45 -556.53 -298.82 4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) -556.53 -103.45 -298.82 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)! 391.86 391.86 6. Equity Share Capital 391.86 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 8. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)--2.64-14.20 -7.63 1. Basic:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the Quarterly Financial Results, including detailed notes to such financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.valueind.in).

-2.64

For VALUE INDUSTRIES LIMITED

-14.20

Place: New Delhi Date: June 8, 2023

2. Diluted:

Abhijit Guhathakurta (Resolution Professional)

-7.63

JK AGRI GENETICS LTD.

(CIN: L01400WB2000PLC091286) Regd. Office: 7, Council House Street, Kolkata -700 001 Secretarial Office: Gulab Bhawan (Rear Wing), 3rd Floor, 6A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002; Tel.: +91 33 22487084/6181, 11 68201265/1891 Website: www.jkagri.com, Email: jkaglshareholder@jkmail.com

INFORMATION REGARDING 23RD ANNUAL GENERAL MEETING

The 23rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of JK Agri Genetics Limited will be held on Friday, the 28th of July 2023 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable Circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the applicable Circulars, the Notice of AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23, will be sent only through electronic mode to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or Depository Participants (DPs). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.jkagri.com and BSE Ltd. at www.bseindia.com and Central Depository Services (India) Ltd. at www.evotingindia.com.

The Company is providing remote e-Voting facility ("remote e-Voting") to all its members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-Voting system during the AGM ("e-Voting"). Detailed procedure for remote e-Voting / e-Voting and participation in AGM through VC/OAVM by the Members has been provided in the Notice of the AGM which will

Manner of registration/updation of E-mail addresses for receiving Annual Report and AGM Notice electronically:

(a) For Shares held in Demat form: Please register/update E-mail addresses with your respective DPs. (b) For Shares held in physical form: Please provide Form ISR-1, Form ISR-2 and

Form No. SH-13 (Nomination Form) duly filled as per the instructions stated therein along with the supporting documents to the Company's RTA, Alankit Assignments Limited at Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 or E-mail: rta@alankit.com. Said Forms are available on the website of the Company at https://jkagri.com/investor-relations/investor-services/. Members are requested to carefully read all the Notes set out in Notice of the AGM including

instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-Voting/ e-Voting during the AGM. Please write to the Company at its secretarial office for any assistance.

Place: New Delhi

Date: 28th June 2023

for JK Agri Genetics Ltd. Anoop Singh Gusain Company Secretary

PUBLIC NOTICE

ENERGYEDGE POWER TRADING PRIVATE LIMITED 114, Block B, Surabhi Apartments, 1712, Bilekahalli, Banerghatta Road Bannerghatta Road Bengaluru South Bengaluru Karnataka India 560076

Notice under sub-section (2) of Section 15 of the Electricity Act, 2003 The person above-named, a company incorporated under the Companies Act, 2013 (the applicant has made an application under sub-section (1) of Section 15 of the Electricity Act, 2003 for grant of Category V License for Inter State Trading in Electricity in geographical region of India before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi. The necessary details in respect of the applicant

(i) Share Capital: INR 2,50,00,000/-Authorised Share Capital INR 2,10,00,000/ Issued Shared Capital Subscribed Share Capital INR 2,10,00,000/ Paid Up Share Capital INR 2,10,00,000/

(ii) Shareholding Pattern (Details of Shareholders holding 5% or more):

Name of Shareholder	Citizenship	Residential Status	No. of Shares	Share Holding % age
Pratyush Shukla	Indian	Resident	9,45,000	45%
VikasKumar	Indian	Resident	11,55,000	55%
(iii) Financial and	d Technical Stren	gth - Energyedge Power	Trading Private Lin	nited has adequate

net worth and liquidity to carry out the business of trading. Energyedge Power Trading Private Limited has full time directors having expertise in Power Markets, Regulations, Commercial Contracts and Finance. iv) Management profile of the applicant including details of past experience of the applicant and

or the persons on the management of the applicant in generation, transmission, distribution and trading of electricity or similar activity - Mr. Vikas Kumar, Director, Energyedge Power Trading Private Limited has worked in domain of Business Development, Energy Operation, Business Consulting, Strategy & Execution, Power Trading, Holistic Energy Solutions and Energy Derivatives Trading,. He has rendered solutions in areas of Tender documentation for Case I and Case II Bidding, Drafting of Retail Electricity Trading contracts, Turnkey Renewable Energy transaction services, drafting of innovative Holistic Energy Contracts, Performance Contracting He has completed B.E. from Bharati Vidyapeeth University, Pune. He carries with him more than 12.5 years of experience in the domain. v) Volume of electricity intended to be traded during the first year after grant of license and

future plans of the applicant to expand volume of trading - Energyedge Power Trading Private Limited aims to commence interstate trading operations in India by tying up contracts to the extent of 500 MUs during its first year of operations. The quantum of power trade is expected to increase at 50% per annum over the subsequent 2 years. (vi) Geographical areas within which the applicant will undertake trading in electricity - All India

(vii) Net worth as on 31st March of three consecutive years immediately preceding the year of application or for such lesser period as may be applicable and on the date of the special balance

and the areas as may be permitted under the provisions of The Electricity Act 2003 and relevant

sheet accompanying the application -Amount in INR- 2,11,25,500/-(viii) Year-wise current ratio and liquidity ratio of the applicant for three years preceding the year in which the application is made, or for such lesser period as may be applicable and on the date of the special balance sheet accompanying the application - Current Ratio = 43.80:1

(ix) (a) Energyedge Power Trading Private Limited is authorized to undertake trading in electricity under the MOA in the main object.

(b) The said clause reads as "3. To establish and carry on the businesses of generators, suppliers, processors, accumulators, distributors, traders of and dealers in, and act as trader and Power Exchange Member in the sale and purchase of electricity within or across the geographical boundary ofIndia and electrical energy in any form and by any process and with any fuel, derivatives including but not limited to renewable energy certificates, carbon credits, energy conservation certificates or by products connected with or related to the generation

Details of cases, if any, where the applicant or any of his associates, or partner, or promoters, or Directors has been declared insolvent and has not been discharged - None

(xi) Details of cases, if any, in which the Applicant or any of his Associates or partners or promoters or Directors has been convicted of an offence involving moral turpitude, fraud or any economic offence during the previous three years preceding the year of making the application and the year of making the applicant and the date of release of the above person from imprisonment. if any, consequent to such conviction - None

refused license, and if so, the detailed particular of the application, date of making application, date of order refusing license and reasons for such refusal- NO

(xiii) Whether the Applicant has been granted a license for transmission of electricity - NO (xiv) Whether an order cancelling the license of the Applicant, or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors has been passed by the Commission - NO

(xv) Whether the Applicant or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors was ever found guilty in any proceedings for contravention non-compliance of any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made there under or an order made by the Appropriate Commission, during the year of making the application or five years immediately preceding

inspection by any person with Mr. Vikas Kumar, 114, Block B, Surabhi Apartments, 17/2, Bilekahalli, Banerghatta Road Bannerghatta Road Bengaluru South Bengaluru. Telephone +91-8860086327, E-mail: eeptpltd@gmail.com;

The application made, and other documents filed before the Commission have been posted

Objections or suggestions, if any, on the application made before the Commission may be sent to the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, 3rd & 4th Floor, Chanderlok Building, 36, Janpath, New Delhi-110001; E-mail: secy@cercind.gov.in within 30 days of publication of this notice, with a copy to the applicant.

No objections or suggestions shall be considered by the Commission if received after expiry of 30 days of publication of this notice. VikasKumar

CIN: L51109WB1983PLC035969 Regd. Office: 20-B, Abdul Hamid Street,4th Floor, Kolkata-700 069, Phone: 033-22483203 E-mail: eita.cal@eitain.com, Website: www.eitain.com

EITA INDIA LIMITED

Notice is hereby given that 41st Annual General Meeting (AGM) of the Members of EITA India Limited will be held on Friday, 21st July, 2023 at 1.00 P.M. at the registered office of the Company at 20B, Abdul Hamid Street, 4th Floor, Kolkata - 700 069 to transact the Businesses as set out in the Notice.

In compliance with relevant Circulars, Notice of Annual General Meeting along with instructions for remote e-voting and voting at the AGM, Attendance Slip, Proxy Form & Annual Report for the financial year ended 31st March, 2023 has been sent to Members through requisite mode. The said documents are also available on the Company website at www.eitain.com & CDSL website at www.evotingindia.com.

In this regard, Members whose Email Ids for communication are not registered with the Company /RTA/DP are requested to update the same by following instructions set out below:

remote e-voting period begins on 18th July, 2023 at 9.00 A.M. (IST) and ends on 20th July, 2023 at 5.00 P.M. (IST). During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialization form, as on the cut-off date 14th July, 2023, may cast their vote electronically. The remote e-voting shall not be allowed beyond said date and time. The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email ID and any person who acquired shares and became member after dispatch of Notice of 41st. AGM and holds shares as on the cut-off date, may obtain login ID and password for remote e-voting by sending a request to the Company's RTA at nichetechpl@nichetechpl.com. Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting can exercise their right at the venue of the meeting through ballot paper. However, in case vote already casted through remote e-voting shall prevail.

(CDSL), Central Depository Services (India) Ltd., A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800225533 or contact the Company at eita.cal@eitain.com/blsharma@eitain.com or over phone at 033-22483203. By order of the Board

For any queries regarding e-voting, members may write to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager

For EITA India Limited Sd/-Managing Director

Place: Kolkata Date: 28.06.2023

SWaraJ

SWARAJ ENGINES LTD.

CIN: L50210PB1985PLC006473

Regd. Office: Phase IV, Industrial Area, S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab - 160055, Tel: 0172-2271620, Fax: 0172-2272731 E-mail: selinvestor@swarajenterprise.com Website: www.swarajenterprise.com

INFORMATION REGARDING 37[™] ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS AND NOTICE OF BOOK CLOSURE The shareholders may please note that the 37th Annual General Meeting

("AGM") of Swaraj Engines Limited ("the Company") will be held on Friday, 28th July, 2023 at 2:00 P.M., through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the 37th AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 2/2022 and 10/2022 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020, 13" January, 2021, 14" December, 2021, 5" May, 2022 and 28" December, 2022 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") and all other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

In compliance with the above Circulars, the electronic copies of the Notice of the 37th AGM, procedure and instructions for e-voting, and Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company Depository Participant(s). The Notice of the 37" AGM and Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website at www.swarajenterprise.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

The Company will provide the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means both through remote e-voting and evoting at the AGM. The instructions on the process of remote e-voting before the AGM / e-voting during the AGM, including the manner in which the Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through remote evoting / e-voting, will be provided as part of the Notice of the 37" AGM.

The shareholders may note that the Board of Directors at their meeting held on 27th April, 2023 has recommended a dividend of Rs. 92.00 per share. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register of Members and share transfer books will remain closed from 8th July, 2023 to 14th July, 2023 (both days inclusive).

The dividend, subject to the approval of the Members, will be paid on or after 29" July, 2023 electronically through various online transfer modes to the shareholders who have updated their bank account details. To avoid delay in receiving the dividend, the shareholders are requested to update their complete bank details with their Depositories (where shares are held in dematerialised mode) and with the Company's Registrar and Transfer Agent (where shares are held in physical mode). In case, the Company is unable to pay the dividend to any shareholder by the electronic mode due to non-availability of the details of the bank account, the Company shall dispatch the dividend warrant to such shareholder to their registered address by post.

The Shareholders who wish to register their e-mail address and/or update bank account mandate may follow the below instructions:

A. For shares held in electronic form: Register/update the details in your demat account, as per the process advised by your Depository Participant (DP);

B. For shares held in physical form: Register/update the details in the prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Registrar and Transfer Agent of the Company, MCS Share Transfer Agent Limited (MCS). Pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655_dated_3" November, 2021, the Company has sent the letters to the shareholders holding shares in physical form to furnish the KYC details which are not registered in their respective folios. The Shareholders can also access the relevant forms on the Company's website at https://swarajenterprise.com/lmpNot.

The shareholders may note that the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the shareholders. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source ("TDS") at the time of making payment of the dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, as applicable, the shareholders are requested to submit the requisite documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 at selinvestor@swarajenterprise.com. The relevant details in this regard will be available in the Notice of the 37" AGM.

This notice is being issued for the information and benefit of all the shareholders of the Company in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

Place: S.A.S. Nagar (Mohali)

Date: 28th June, 2023

Director

For SWARAJ ENGINES LIMITED Sd/-

> (Rajesh K. Kapila) Company Secretary M.No.: ACS-9936

Place: Mumbai

Date: 29th June, 2023

यूको बैंक 🚱 UCO BANK

Head Office-II, Department of Information Technology 3 & 4, DD Block, Sector - 1, Salt Lake, Kolkata-700064 NOTICE INVITING TENDER

UCO Bank invites Request for Proposal (RFP) for Procurement of Cyber Security Tools to Enhance Bank's Cyber Security Resilience through GeM portal. GeM Bid No. GEM/2023/B/3624947 dated 28.06.2023.

For any details, please refer to https://www.gem.gov.in & https://www.ucobank.com

(Deputy General Manager) Department of Information Technology Date: 29.06.2023

VALUE INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 14KM Stone, Aurangabad-Paithan Road, Village Chittegaon, Taluka Paithan, Aurangabad- 431 005 CIN No. L99999MH1988PLC046445

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER, 2021

Company /RTA/DP are requested to update the same by following instructions set out				(Amo	ount in Millions)
below: a) Members holding share in demat mode are requested to update their email id, Mobile Nos. Bank Account details and other details with the relevant DPs.	SI.	Particulars	Quarter Ended 31/12/2021	Nine month ended 31/12/2021	Quarter ended 31/12/2020
b) Members holding share in physical mode are requested to send a request letter along	X P	11	Unaudited	Unaudited	Unaudited
with the Form ISR 1 mentioning name, folio no., mobile no., email address, number of	1.	Total Income from Operations	0.03	1.50	1.59
shares, held & complete postal address along with scanned copy of Share Certificate	2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-105.64	-662.17	-888.03
(both sides), self-attested scanned copy of PAN Card, self-attested scanned copy of Address proof (Aadhaar Card/Passport/Voter ID/Bank Passbook Particulars/Driving	3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-105.64	-662.17	-888.03
license/Electricity Bill/Telephone Bill) in support of the postal addresses of the Members as registered against their shareholdings, to the Company's RTA, Niche Technologies Pvt.	4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-105.64	-662.17	-888.03
Ltd. on their Email at nichetechpl@nichetechpl.com or Company at eita.cal@eitain.com Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and regulation 42 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015,	5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-105.64	-662.17	-888.03
the share transfer books and Register of Members shall remain closed from 15th July,	6.	Equity Share Capital	391.86	391.86	391.86
2023 to 21st July, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 41st Annual General Meeting (AGM) of the Company. The business at the AGM may be transacted through voting by electronic means. The	7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			
remote e-voting period begins on 18th July, 2023 at 9.00 A.M. (IST) and ends on 20th July,	8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-	year.	500-51-00-	2000000

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the Quarterly Financial Results, including detailed notes to such financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.valueind.com)

-2.70

-2.70

-16.90

-16.90

-22.66

-22.66

(Resolution Professional)

(Amount in Millions)

For VALUE INDUSTRIES LIMITED Place: New Delhi Abhijit Guhathakurta

VALUE INDUSTRIES LIMITED

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2021.

Registered Office: 14KM Stone, Aurangabad-Paithan Road, Village Chittegaon, Taluka Paithan, Aurangabad- 431 005 CIN No. L99999MH1988PLC046445

SI. No	Particulars	Quarter Ended 30/06/2021	Quarter Ended 30/06/2020	Year Ended 31/03/2021
		Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	2.89	+3	11.05
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-453.07	-288.55	-2373.76
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-453.07	-288.55	-2373.76
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-453.07	-288.55	-2373.76
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-453.07	-288.55	-2373.76
6.	Equity Share Capital	391.86	391.86	391.86
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			-9805.03
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic; 2. Diluted:	-11.56 -11.56	-7.36 -7.36	-60.58 -60.58

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results, including detailed notes to such financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.valueind.in) For VALUE INDUSTRIES LIMITED

Place: New Delhi Date: June 08, 2023

1. Basic:

2. Diluted:

Date: June 8, 2023

Abhijit Guhathakurta

(Resolution Professional)

VALUE INDUSTRIES LIMITED Registered Office: 14KM Stone, Aurangabad-Paithan Road, Village Chittegaon, Taluka Paithan, Aurangabad- 431 005 CIN No. L99999MH1988PLC046445 FOR THE QUARTER / HALF YEAR ENDED 30" SEPTEMBER, 2021

_				(Amour	nt in Million
SI.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2022	Corresponding 3 months ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.202
		Audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from Operations		7.71	1.50	11.05
2.	Net Profit / (Loss) for the period (beforeTax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-1496.23	-898.36	-2158.47	-2373.76
3.	Net Profit / (Loss) for the period beforetax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	-1496.23	-898.36	-2158.47	-2373.76
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	-1496.23	-898.36	-2158.47	-2373.70
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-1496.23	-898.36	-2158.47	-2373.76
6.	Equity Share Capital	391.86	391.86	391.86	391.86
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			-11955.51	-9805.03
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic: 2. Diluted;	-38.18 -38.18	-22.93 -22.93	-55.08 -55.08	-60.58 -60.58

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results, including detailed notes to such financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.valueind.in) For VALUE INDUSTRIES LIMITED

Place: New Delhi Date: June 8, 2023

Abhijit Guhathakurta NIDHI GRANITES LIMITED

Regd. Office: 503, Madhu Industrial Park, Mogra Cross road, next to Apollo Chambers, Andheri East, Mumbai 400069. Tel No: (022) 2649 1040; Fax: (022) 2648 5481 Email Id: nglindia2021@gmail.com Website: www.nidhigranites.com

CIN NO: L51900MH1981PLC025677

NOTICE Notice is hereby given that **41st Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held

at 503, Madhu Industrial Park, Mogra Cross road, next to Apollo Chambers, Andheri East, Mumbai 400069 on Saturday, July 22, 2023 at 11.30 a.m. to transact the business as set out in the Notice of AGM which along with Annual Report 2022-2023 has been sent electronically to those members who have registered their email addresses with Company/Depository Participants. Any Member desirous of receiving a physical copy of the Annual Report, is requested to contact the Company. The 41st Annual Report is also available on Company's website at www.nidhigranites.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") and Regulation 44 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR"), the Company is offering remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted at The Company has engaged services of 'Central Depository Services (India) Limited' as the authorized agency to provide the remote e-voting facility to its members. The cut-off date for

determining the eligibility to vote by electronic means and poll is Saturday, July 15, 2023. The communication relating to remote e-voting containing User Id and password/pin along with a copy of the Notice convening the meeting has been dispatched to the members. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote electronically for which remote e-voting will commence from 9.00 a.m. on Wednesday, July 19, 2023 up to 5.00 p.m. on Friday, July 21, 2023. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a

member of the Company after dispatch of notice and holding shares as of cut-off date i.e. July 15, 2023 may obtain login ID and password by sending an email to nglindia2021@gmail.com or helpdesk.evoting@cdslindia.com or jp@unisec.in by mentioning his/her Folio No./DP ID and Client ID. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting then they can use his/her existing user ID and password for casting vote. Pursuant to section 107 of the Act, voting through polling paper shall also be made available

to those members who attend the AGM and have not cast their vote by e-voting. A member may participate in the meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at AGM. In case of any query, you may refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of "www.evotingindia.com" or

contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, Marathon Futurex, A-Wing 25th Floor, Mafatlal Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (E) Mumbai-400013 or at helpdesk.evoting@cdslindia.com or on Phone No: 1800225533. By Order of the Board For NIDHI GRANITES LIMITED

> Sd/-Darpan Shah **Managing Director** (DIN: 07650896)

> > New Delhi

SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED

Regd. office: 516, Suneja Tower-I, District Centre, Janakpuri, Delhi-110058 Tel No. 0124-4396900, E-mail: compliancesdfl@gmail.com; Website: www.somdattfin.com, CIN: L65921DL1993PLC377542

> NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 30th (Thirtieth) Annual General Meeting (AGM) of the

Company will be held on Friday, 21st July, 2023 at 12:00 p.m. through video conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-23 on 28th June, 2023 through electronic mode to members whose email addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with the circular nos. 20/2020 dated May 5, 2020 read with circular nos. 14/2020 and 17/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020, and May 05, 2022 respectively and subsequent circulars issued in this regard, latest being 10/2022 dated December 28. 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by Securities Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"). The Notice of the AGM and Annual Report of the Company for Financial Year 2022-23 is available and can be downloaded from the company's website https://www.somdattfin.com/investors/annual-report/ and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically on all resolutions set forth in the Notice of the AGM, using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of the members shall be in proportion of equity shares held by them in the paid up share capital of the Company as on Friday 21st July, 2023. (cut off date). The remote e-voting period commences on 18th July, 2023 (9:00 a.m. IST) and ends on 20th July, 2023 (5:00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote

electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. If you have not registered your e-mail address with Company/Depository you may please follow below instructions for obtaining login id details for e-voting:

Shareholders holding shares in physical mode are requested to submit the form ISR-1 along with supporting documents in original to the Registrar and Transfer Agents of the Company, RCMC Share Registry Pvt. Ltd. at B-25/1 Holding Okhla Industrial Area, Phase -2, Near Rana Motors, New Delhi - 110020 for registering email address. The said form is available on the website of the

company under the head Investor-Announcement-Information to physical shareholder Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process

advised by your DP.

evoting@nsdl.co.in.

For details relating to e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-222-990 or send a request at

For SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED

Simran Malhotra Place: Gurugram Company Secretary Date: 28/06/2023



MAAN ALUMINIUM LIMITED Regd. Off.: 4/5, 1st Floor, Asaf Ali Road, New Delhi-110002

CIN: L30007DL2003PLC214485, Ph: 40081800, Email: info@maanaluminium.in / Website: www.maanaluminium.com

Notice of 20th Annual General Meeting, E-Voting and Book Closure NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting ("AGM" of the Members of Maan Aluminium Limited ("the Company") will be held through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") or Wednesday, July 19, 2023, at 11:00 A.M. (IST) to transact the Ordinary and Special businesses, as set out in the Notice of the 20th AGM. Th venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e., 4/5, First Floor, Asaf Ali Road, New Delhi 110002.

In compliance with General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020 General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No.02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 08, 2021, 20/2021 dated December 14, 2021, 02/2022 dated May 05, 2022 and 10/2022 dated Decembe 28, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 1: 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January , 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEB Circulars'), permitting convening of the AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue, the attendance of members attending through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM.

In compliance with the applicable circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report including the Audited Financial Statements for the Financial Year 2022-23 have been sent to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s). The electroni dispatch of Annual Report to Members has been completed on Thursday June 27, 2023. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2022-23 has been dispense with pursuant to the aforesaid MCA Circulars/ SEBI Circulars. The Annua Report and Notice of 20th AGM are also available on the Company's website www.maanaluminium.com and on the website of Link Intime India Pvt. Ltd. i.e. https://instavote.linkinfime.co.in and can also be accessed on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and

Instructions for Remote E-voting and E-voting during AGM:

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard - 2, the Company is pleased to provide electronic voting facility to Members to exercise their right to vote on resolutions proposed to be transacted
- the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date for e-voting i.e. Wednesday, July 12, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-votin during the 20th AGM. A person who is not member as on the said cut-of date should treat this notice for information purpose only. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share

A person whose name is recorded in the Register of Members or in

of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, July 12, 2023. The remote e-voting period will commence on July 16, 2023 at 09:00 A.M. and ends on July 18, 2023 at 05:00 P.M. The remote e-votini

module shall be disabled for voting at 05:00 P.M. on July 18, 2023

Once the vote on a resolution is cast by the member, the membe

The remote e-voting module will be disabled by Link Intime thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time Members who have acquired shares after sending the Annual Report

through electronic means and before the cut-off date are requested

cannot modify it subsequently.

to refer to the Notice of AGM for the process to be adopted fo obtaining the USER ID and Password for casting the vote. Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be

eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote

Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the provided in the AGM Notice which is available on the Company's website at www.maanaluminium.com, on the website Link Intime India Pvt. Ltd. i.e. https://instavote.linkintime.co.in and on the websites of Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

n case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in. under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us:- Tel: 022-

M/s A Abhinav & Associates, Company Secretaries have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting process before and during the AGM in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting and votes cast during the AGM shall

be declared not later than two working days from the conclusion of the AGM. The Results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.maanaluminium.com and BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd. www.nseindia.com. Result will be declared forthwith on receipt of the Report of the Scrutinizer.

Manner of registration of e-mail address The entire shareholding of the Company is in Demat form. For the limited

purpose of sending the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 through e-mail to those members whose e-mail address is not registered with their Depository Participant, such members may also temporarily get their e-mail id registered by providing the Demat account details (CDSL-16 digits beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID -CLID), name, client master or copy of Consolidated Account Statement PAN Card (Self Attested Copy), Aadhar Card (Self Attested Copy) to Company at cs@maanaluminium.in / RTA e-mail id at enotices@linkintime.co.in or visit the link https://instavote.linkintime.co.in It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register the same with their respective Depository

Record Date for Sub Division and Bonus The Company has fixed Thursday, 27th July, 2023 as the Record Date

for determining the eligibility of members to receive Bonus and Sub Division of Shares, subject to the approval of shareholders at the AGM.

By order of the Board For Maan Aluminium Limited

Ravinder Nath Jain

Place: Delhi Chairman and Managing Director Date: 27.06.2023

financialexp.epapr.in

and supply of electrical energy."

and Liquid Ratio/Quick Ratio = 43.75:1

Place : Bengaluru

are given hereunder:

(xii) Whether the Applicant or any of his Associates, or partners, or promoters, or Directors was ever

The application made, and other documents filed before the Commission are available for

on www.energyedge.in

Date: 29-June, 2023